



Long-Term Care Home Update

Community Newsletter



जुलाई 2021

## होम की जुलाई में हुई प्रगति पर एक नज़र

28 जुलाई 2020 को, (आज से लगभग एक साल पहले!) Ontario सरकार ने त्वरित निर्माण प्रक्रिया द्वारा, Lakeridge Health और Infrastructure Ontario की सहयोगी साझेदारी में Ajax Pickering Hospital के बगल में एक नए दीर्घ-कालिक देखभाल होम बनाने की घोषणा की थी।

हर हफ्ते होम को जीवंत होते देखना, Lakeridge Health और पूरे Durham समुदाय के लिए बेहद रोमांचक समय रहा है और, जैसा कि आपने मुमकिन है देखा और सुना हो, निर्माण बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

जून में, हमारे निर्माण साझेदार, PCL Construction ने, चौथी मंजिल को पूरा कर लिया था और पाँचवीं मंजिल पर दीवारों की बीम और फर्श के पैनल डालने शुरू कर दिए थे। PCL Construction की टीम द्वारा पाँचवीं और छठी मंजिल दोनों पूरी करने के दौरान यह प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों तक जारी रहेगी।

अंतिम छठी मंजिल का पूरा होना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि इस से होम का ढांचा बन कर तैयार होने का संकेत मिलता है। इसके बाद कार्यदल अपना ध्यान होम के अन्य ज़रूरी तत्वों पर लगाएंगे, जिसमें इसकी HVAC प्रणाली और बाहरी साइडिंग और दीवारों के पैनल लगाना शामिल होगा। निर्माण सही दिशा में और सही समय पर चलने की वजह से, कुछ और भी रोमांचक घटनाक्रम हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। विशेष रूप से, होम के पार्किंग गराज पर काम चालू हो गया है, और महीने के अंत तक एक क्रेन को अलग कर के कार्यस्थल से हटा दिया जाएगा।

पूरा हो जाने पर, 320 बेड वाला यह होम आधुनिक डिज़ाइन और संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण के साथ हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों और होम की भविष्य की टीम के सदस्यों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ स्थान सुनिश्चित करेगा।



17 जुलाई 2021 को छठी मंजिल पर काम करते हुए कार्यदल

## Cheyenne Hammell से मिलिए: दीर्घ-कालिक देखभाल होम निर्माण के कई लीडरों में से एक

इस महीने के सामुदायिक न्यूजलेटर में, हम नए दीर्घ-कालिक देखभाल होम पर काम करने वाले बहुत से असाधारण टीम सदस्यों में से एक से आपका परिचय करवाना चाहते हैं।

Cheyenne Hammell, PCL Construction में एक परियोजना मैनेजर हैं और फिलहाल Lakeridge Health के दीर्घ-कालिक देखभाल होम के डिज़ाइन के काम की देख-रेख कर रही हैं। Cheyenne एक सलाहकार और लीडर हैं जिन्होंने पूरे Greater Toronto Region की कई परिवर्तनकारी निर्माण परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। उन्हें हाल ही में Women's Leadership Initiative Championship Team (महिला नेतृत्व पहल चैंपियनशिप टीम) के सबसे नए सदस्य के रूप में नामित किया गया था। चैंपियनशिप टीम Toronto क्षेत्र की उन महिला-निर्धारित लीडरों और प्रभावकों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने शहर के रियल एस्टेट और विकास का नेतृत्व किया है और इसमें योगदान दिया है।



Ajax Pickering Hospital के नए दीर्घ-कालिक देखभाल होम के बाहर Cheyenne Hammell

तकरीबन 220 कर्मचारियों के वर्तमान कार्यबल के साथ, Cheyenne इस रोमांचक नई सुविधा के सृजन और निर्माण के लिए एक साथ काम करने वाली एक बड़ी बहु-विषयक टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे अंततः हमारे समुदाय के मूल्यवान सदस्यों, उनके परिवारों और उनकी देखभाल करने वाले कर्मचारियों के लिए घर माना जाएगा। Lakeridge Health को इस प्रक्रिया का एक हिस्सा होने पर बहुत खुशी है और वह Cheyenne और प्रत्येक टीम के सदस्य के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य-देखभाल और सामुदायिक साझेदारों, और पूरे Durham क्षेत्र के निवासियों को उनके योगदान और होम और उसके विकास में रुचि लेने के लिए धन्यवाद कहना चाहता है।

## आगंतुक और निर्माण टीम की पार्किंग के बारे में ताज़ा जानकारी

अत्याधुनिक दीर्घ-कालिक देखभाल होम के साथ-साथ, निर्माण में 532-स्थल वाले पार्किंग गराज का निर्माण भी शामिल है, जो नए होम और अस्पताल दोनों के ही कर्मचारियों, रोगियों और आगंतुकों के वाहन खड़े करने के काम आएगा। नए परकी गराज बनने के दौरान कुछ रास्तों में बदलाव होगा और Ajax Pickering Hospital के East Parking Lot के करीब आगंतुकों और कर्मचारियों के वाहन पार्क करने के लिए थोड़ी काम जगह मिल पाएगी।

मई में हमने Barr Road और Monarch Avenue के कोने के करीब एक एक विकास स्थल पर निर्माण कार्यदल के लिए पार्किंग के बारे में एक जानकारी भी साझा की थी। यह स्थल, जो एक स्थानीय पारिवारिक व्यवसाय द्वारा बहुत उदारतापूर्वक हमें दिया गया है, इस का उपयोग कार्यस्थल के कर्मचारियों के निजी वाहन खड़े करने के लिए किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस नए पार्किंग स्थल का प्रयोग बढ़ जाएगा। हालांकि इस से आवासीय सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन कर्मचारियों के कार्यस्थल से पार्किंग तक आने-जाने की वजह से सड़क के किनारे और Clements Woodlot के रास्ते में पैदल चलने वालों की भीड़ बढ़ जाएगी।

हमारे पड़ोसियों, आगंतुकों और कर्मचारियों को इन पार्किंग के बदलावों की वजह से हुई किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है। आने वाले हफ्तों में अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने के लिए हम अंतरिम समाधान विकसित कर रहे हैं। धैर्य बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद और यदि होम के निर्माण के बारे में आपके कोई प्रश्न या चिंताएँ हों तो हम से संपर्क करने में संकोच ना करें।



### संपर्क में रहें

हमें पता है कि Durham क्षेत्र के लिए नया दीर्घ-कालिक देखभाल होम कितना महत्वपूर्ण है। होम के निर्माण के बारे में ताज़ा जानकारी पाने के लिए:

- [lakeridgehealth.on.ca](http://lakeridgehealth.on.ca) पर हमारी वेबसाइट पर जाएं
- किसी भी प्रश्न या पूछताछ के लिए **905-576-8711 ext. 34167** पर कॉल करें या **AjaxLTC@lh.ca** पर ईमेल करें
- आप हमें Twitter और Facebook पर फॉलो भी कर सकते हैं